

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महराजगंज

दिनांक- अक्टूबर 8, 2020

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ***110 वाहनों का चालान, 22 वाहनों से कुल 19000/-रूपया शमन शुल्क वसूल*** किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर बिना मास्क लगाये घुमने वालों पर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर धारा ***188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कुल- 12*** व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी व ***मास्क न लगाने वाले कुल- 106 व्यक्तियों से 10600/- रुपये शमन शुल्क*** वसुला गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से ***कुल- 07 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार*** कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

कस्टम अधिनियम मे की गयी कार्यवाही-

थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हेमन्त कुमार पुत्र सुनील यादव सा0सिरसिया थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 750 किलोग्राम कनाडियन मटर व पीकप वाहन बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, धारा- 3/11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1- मुन्ना उर्फ हेमन्त पुत्र श्यामबदन नि0 सोहट थाना कोठीभार मह0 के कब्जे से 09 क्वींटल मटर बरामद कर थाना स्थानीय पर ***मु0अ0सं0- निल/20, 2- नाम पता अज्ञात 10 बोरी यूरिया बरामद कर थाना स्थानिय पर मु0अ0सं0 निल/2020, धारा- 11 कस्टम अधिनियम*** का अभियोग पंजीकृत कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्या0 प्रेषित किया गया ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए ***कुल-12*** विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 07/08-10-2020 को विभिन्न अपराधों में कुल- 07 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

